

4

वर्गमूल तथा घनमूल

प्रकार-1

वर्ग एवं वर्गमूल-आधारित

S.S.C. ऑनलाइन मल्टी टॉसिंग परीक्षा, 16 सितंबर, 2017 (I-पार्टी)
उत्तर—(b)

$$\text{व्याख्या} - \sqrt{1500 + \sqrt{441}} = \sqrt{1500 + 21} \\ = \sqrt{1521} \Rightarrow 39$$

S.S.C. ऑनलाइन मर्ट्टी ट्रैसिंग परीक्षा, 17 सितंबर, 2017 (I-पार्टी)
उत्तर—(c)

$$\begin{aligned} \text{व्याख्या} - \sqrt{15+6\sqrt{6}} &= \sqrt{(9+6+6\sqrt{6})} \\ (\because 15 = 9 + 6 \text{ रखा गया}) \\ &= \sqrt{(3)^2 + (\sqrt{6})^2 + 2 \times 3 \times \sqrt{6}} \\ &= \sqrt{(3+\sqrt{6})^2} \Rightarrow 3 + \sqrt{6} \end{aligned}$$

3. $\sqrt{0.000441}$ का मान क्या है?

S.S.C. कांस्टेबल (G.D.) परीक्षा, 2015

S.S.C. स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2002

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2010

$$\text{व्याख्या}— \sqrt{0.000441} = \sqrt{0.021 \times 0.021} \\ = 0.021$$

4. $\sqrt{\frac{0.00001225}{0.00005329}}$ बराबर है—

- (a) $\frac{25}{77}$ (b) $\frac{35}{73}$

- (c) $\frac{35}{77}$

S.S.C. स्नातक स्तरीय परीक्षा, 1999, 2001 2002, 2004

S.S.C. C.P.O. परीक्षा, 2003, 2008, 2010

उत्तर—(b)

$$\text{व्याख्या} - \sqrt{\frac{0.00001225}{0.00005329}} = \sqrt{\frac{1225}{5329}}$$

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2013

उत्तर—(a)

व्याख्या— 62478078 का वर्गमूल 7904.30755981 होगा। जिसमें दशमलव से पहले अंकों की संख्या 4 है इसलिए 62478078 के वर्गमूल में अंकों की संख्या 4 होगी।

6. $\left(\frac{\sqrt{3} + \sqrt{2}}{\sqrt{3} - \sqrt{2}} \right)$ का वर्गमूल कितना है ?

- (a) $\sqrt{3} + \sqrt{2}$ (b) $\sqrt{3} - \sqrt{2}$
(c) $\sqrt{2} \pm \sqrt{3}$ (d) $\sqrt{2} - \sqrt{3}$

S.S.C. स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा, 2011

उत्तर—(a)

$$\begin{aligned}
 \text{व्याख्या—} \quad & \frac{\sqrt{3} + \sqrt{2}}{\sqrt{3} - \sqrt{2}} = \frac{(\sqrt{3} + \sqrt{2})(\sqrt{3} + \sqrt{2})}{(\sqrt{3} - \sqrt{2})(\sqrt{3} + \sqrt{2})} \\
 & = (\sqrt{3} + \sqrt{2})^2 \\
 \therefore \quad & \sqrt{\frac{\sqrt{3} + \sqrt{2}}{\sqrt{3} - \sqrt{2}}} = \sqrt{(\sqrt{3} + \sqrt{2})^2} \\
 & = (\sqrt{3} + \sqrt{2})
 \end{aligned}$$

7. $\sqrt{7+4\sqrt{3}}$ का मान क्या है?
- (a) $2 - \sqrt{3}$ (b) $2 + \sqrt{3}$
 (c) $3 + \sqrt{3}$ (d) $3 - \sqrt{3}$

S.S.C. ऑनलाइन मल्टी टॉसिंग परीक्षा, 19 सितंबर, 2017 (I-पार्टी)
 उत्तर-(b)

व्याख्या—
$$\begin{aligned}\sqrt{7+4\sqrt{3}} &= \sqrt{4+3+4\sqrt{3}} \\ &= \sqrt{(2)^2+(\sqrt{3})^2+2.2.\sqrt{3}} \\ &= \sqrt{(2+\sqrt{3})^2} \Rightarrow 2+\sqrt{3} \\ [\because (a+b)^2 &= a^2 + b^2 + 2.a.b]\end{aligned}$$

8. $14+6\sqrt{5}$ का धनात्मक वर्गमूल कितना है?
- (a) $2+\sqrt{5}$ (b) $3+\sqrt{5}$
 (c) $5+\sqrt{3}$ (d) $3+2\sqrt{5}$

S.S.C. स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2006, 2011
 S.S.C. C.P.O. परीक्षा, 2007

S.S.C. ऑनलाइन C.P.O. 3 जुलाई, 2017 (II-पार्टी)

उत्तर-(b)

व्याख्या—
$$\begin{aligned}\sqrt{14+6\sqrt{5}} &= \sqrt{3^2+(\sqrt{5})^2+2.3\sqrt{5}} \\ &= \sqrt{(3+\sqrt{5})^2} \Rightarrow 3+\sqrt{5}\end{aligned}$$

9. $\sqrt{4032} \times \sqrt{7} = ?$
- (a) $24\sqrt{7}$ (b) 168
 (c) $36\sqrt{2}$ (d) 252

S.S.C. C.P.O. परीक्षा, 2012

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2015

उत्तर-(b)

व्याख्या—
$$\begin{aligned}\sqrt{4032} \times \sqrt{7} &= \sqrt{4032 \times 7} \\ &= \sqrt{28224} \\ &= 168\end{aligned}$$

10. 1166400 के वर्गमूल में अंकों की संख्या होगी—
- (a) 5 (b) 3
 (c) 6 (d) 4

S.S.C. स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2006

उत्तर-(d)

व्याख्या— $\sqrt{1166400} \Rightarrow 1080$
 अतः 1166400 के वर्गमूल में अंकों की संख्या 4 होगी।

11. X के किस मान के लिए $211X$ एक पूर्ण वर्ग होगा?
- (a) 4 (b) 5
 (c) 6 (d) 9

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 16 अगस्त, 2017 (II-पार्टी)

उत्तर-(c)

व्याख्या— दी हुई संख्या = $211X$
 स्पष्ट है कि इकाई का अंक 6 होने पर दी हुई संख्या
 $= 2116 = 2 \times 2 \times 23 \times 23 \Rightarrow 2^2 \times 23^2$ जो एक पूर्ण वर्ग
 संख्या बन जाएगी।

12. निम्नलिखित में से कौन एक पूर्ण वर्ग नहीं है?
- (a) 1024 (b) 1521
 (c) 1444 (d) 876

S.S.C. ऑनलाइन मल्टी टॉसिंग परीक्षा, 16 सितंबर, 2017 (I-पार्टी)

उत्तर-(d)

व्याख्या— $1024 = 32 \times 32$
 $1521 = 39 \times 39$
 $1444 = 38 \times 38$
 $876 = 2 \times 2 \times 3 \times 73$

अतः संख्या 876 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है।

13. निम्नलिखित में से कौन एक पूर्ण वर्ग नहीं है?
- (a) 1024 (b) 1089
 (c) 676 (d) 749

S.S.C. ऑनलाइन मल्टी टॉसिंग परीक्षा, 20 सितंबर, 2017 (I-पार्टी)

उत्तर-(d)

व्याख्या— $1024 = \underline{\underline{32 \times 32}}$
 $1089 = \underline{\underline{33 \times 33}}$
 $676 = \underline{\underline{26 \times 26}}$
 $749 = \underline{\underline{7 \times 107}}$

अतः विकल्प (d) पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है।

14. चार अंकों की वह कौन-सी सबसे छोटी संख्या है, जो एक पूर्ण वर्ग है?
- (a) 1024 (b) 1048
 (c) 1021 (d) 1089

S.S.C. ऑनलाइन C.P.O. 3 जुलाई, 2017 (II-पार्टी)

उत्तर-(a)

व्याख्या— $31 \times 31 = 961$
 $32 \times 32 = 1024$

15. वह न्यूनतम संख्या जिसे यदि 63520 में से घटाया जाए, तो परिणामस्वरूप पूर्ण वर्ग बन जाए, क्या होगी?

- (a) 30 (b) 24
 (c) 14 (d) 16

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 30 अगस्त, 2016 (III-पार्टी)

उत्तर-(d)

S.S.C. ऑनलाइन CHSL (T-I) 14 मार्च, 2018 (I-पाली)
उत्तर-(c)

(c) 991029773 (d) 991097273
S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I)10 सिंकर, 2016 (III-पती)

उत्तर—(a)

$$\begin{aligned}
 \text{व्याख्या} - 997^3 &= (1000 - 3)^3 \\
 &= (1000)^3 - 3 \times (1000)^2 \times 3 + 3 \times 1000 \times (3)^2 - 3^3 \\
 &\quad [\because (a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3] \\
 &= 1000000000 - 9000000 + 27000 - 27 \\
 &= 1000027000 - 9000027 \\
 &= 991026973
 \end{aligned}$$

- 40.** $\sqrt[3]{1372} \times \sqrt[3]{1458} \div \sqrt[3]{343}$ का मान है-

S.S.C. स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2008

उत्तर—(a)

$$\text{व्याख्या} - \sqrt[3]{1372} \times \sqrt[3]{1458} \div \sqrt[3]{343} = \left(\frac{1372 \times 1458}{343} \right)^{1/3} \\ = \left(18^3 \right)^{\frac{1}{3}} \\ = 18$$

S.S.C. C.P.O. परीक्षा, 2010

- S.S.C. स्नातक स्तरीय

S.S.C. संयुक्त स्नातक स्तराय (Tier-I) परीक्षा, 2015

उत्तर—(d)

उत्तर—(d)

उत्तर—(d)

$$\text{व्याख्या} = \sqrt[3]{79.507} + \sqrt[3]{0.079507} + \sqrt[3]{0.000079507} \\ = 4.3 + .43 + .043 = 4.773$$

- 42.** $(72.8)^3 + (27.2)(27.2)(27.2) + 3(72.8)(27.2)(72.8 + 27.2)$ का घनमूल कितना है?

S.S.C. मल्टी टॉस्किंग परीक्षा, 2014

उत्तर-(a)

$$\begin{aligned}
 & \text{व्याख्या—} \\
 & (72.8)^3 + (27.2)(27.2)(27.2) + 3(72.8)(27.2)(72.8+27.2) \\
 & = (72.8)^3 + (27.2)^3 + 3(72.8)(27.2)(72.8+27.2) \\
 & \quad [\because a^3 + b^3 + 3ab(a+b) = (a+b)^3] \\
 & = (72.8+27.2)^3 = (100)^3
 \end{aligned}$$

- [माना $a = 72^\circ$, $b = 27^\circ$ तथा a और b का मान रखा गया।]

$$\text{अब } (100)^3 \text{ का घनमूल } = \sqrt[3]{(100)^3} \Rightarrow 100$$

39 997 का घन क्या है?

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2013
उत्तर—(b)

व्याख्या— $\sqrt[3]{a} = \sqrt[3]{26} + \sqrt[3]{7} + \sqrt[3]{63}$
 $= 2.96 \text{ (लगभग)} + 1.94 \text{ (लगभग)} + 3.99 \text{ (लगभग)}$

या $\sqrt[3]{a} < (3 + 2 + 4)$

$\sqrt[3]{a} < (9)$

$a < 9^3$

$a < 729$

परंतु $\sqrt[3]{a} > 2 + 1 + 3$

$\sqrt[3]{a} > 6$

$a > 6^3$

$a > 216$

अतः $a < 729$ परंतु $a > 216$

- 44.** मान लीजिए $a = \sqrt[3]{2} + \sqrt[3]{3} + 1$ हो, तो $\frac{[(a-1)^3 - 5]^3}{(a-1)^3}$ का मान कितना होगा?

S.S.C. संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) राजस्थानी परीक्षा, 2013
उत्तर—(b)

S.S.C. स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2006

उत्तर—(c)

$$\begin{aligned}
 \text{व्याख्या} - & \sqrt[3]{333 + \sqrt[3]{987 + \sqrt[3]{2197}}} \\
 &= \sqrt[3]{333 + \sqrt[3]{987 + \{(13)^3\}^{\frac{1}{3}}}} \\
 &= \sqrt[3]{333 + 10} \\
 &= 7
 \end{aligned}$$

46. $\sqrt[3]{\sqrt{0.000729}}$ का मान कितना है?

S.S.C. मल्टी टॉस्किंग परीक्षा, 2013

उत्तर—(b)

$$\text{व्याख्या} - \sqrt[3]{0.000729} = \sqrt[3]{0.09 \times 0.09 \times 0.09} \\ = \sqrt{0.09} \Rightarrow \sqrt{0.3 \times 0.3} \\ = 0.3$$

47. $\sqrt[3]{\frac{12}{125}}$ का सरलीकृत मान क्या होगा?

2010-08-20

S.S.C. मल्टी टारक्स पराष्ठा, 2013

三

$$\text{व्याख्या} - \sqrt[3]{4 \frac{12}{125}} = \sqrt[3]{\frac{512}{125}}$$

$$= \sqrt[3]{\frac{8 \times 8 \times 8}{5 \times 5 \times 5}}$$

$$= \frac{8}{5} \Rightarrow 1 \frac{3}{5}$$

48. $\sqrt[3]{1 - \frac{127}{343}}$ किसके बराबर है?

- (a) $\frac{5}{9}$ (b) $1 - \frac{1}{7}$
 (c) $\frac{4}{7}$ (d) $1 - \frac{2}{7}$

S.S.C संयुक्त स्नातक स्तरीय (Tier-I) परीक्षा 2011

उत्तर-(h)

